



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 भाद्र 1935 (श०)
(सं० पटना 702) पटना, शुक्रवार, 6 सितम्बर 2013

बिहार-राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

4 सितम्बर 2013

सं० नि० प्रा०/ नि० 1-03/ 2011 खंड-II-975—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान के अनुसार **बिस्फी प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, मधुबनी (CEDN - FC17MH050098)** के मंत्री/ कोषाध्यक्ष पद का उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार उक्त समिति के मंत्री/ कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 07.10.2013 (सोमवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन उक्त समिति के मंत्री/ कोषाध्यक्ष को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-915 दिनांक 13.08.2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.07.2013 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 31.08.2013 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

निर्वाचन पदाधिकारी उक्त निर्वाचन के लिए संलग्न मानक **प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-2)** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 09.09.2013 (सोमवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त समिति के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न प्रपत्र-2 में विधिमाम्य अभ्यर्थियों की सूची तथा निर्वाचन की तिथि को संलग्न प्रपत्र-3 में निर्वाचित मंत्री/ कोषाध्यक्ष की सूची उन्हीं तिथियों को फैंक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

बिस्फी प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री/ कोषाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	09.09.2013 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	24.09.2013 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	25.09.2013 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	26.09.2013 (वृहस्पतिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	07.10.2013 (सोमवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	07.10.2013 (सोमवार) (अपराह्न 3-4 बजे से)

परिशिष्ट-2

.....समिति,

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

(प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों के निर्वाचन के लिए)

..... समिति, निबंधन संख्या, पता
.....के मंत्री/ कोषाध्यक्ष पद का निर्वाचन दिनांकको किया जाना है।

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
मंत्री/ कोषाध्यक्ष	1 (एक) पद

(ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....
तकबजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर बजे पूर्वाह्न से बजे
(स्थान का नाम)

अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को बजे अपराह्न से ... बजे अपराह्न के पूर्व
तकपर दाखिल की जा सकती है।
(स्थान का नाम)

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-2

**बिस्फी प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, मधुबनी मंत्री/ कोषाध्यक्ष पद के
विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची**

जिला : प्रखंड :

केन्द्रीय/ शीर्ष समिति का नाम, जिससे समिति
संबद्ध है : समिति का कार्य विवरण:

अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार मतदाताओं की
कुल संख्या : संवीक्षा की तिथि : DD/ MM/ YYYY

समिति का नाम :

क्रमांक	मंत्री/ कोषाध्यक्ष	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-3

बिस्फी प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, मधुबनी निर्वाचित मंत्री/ कोषाध्यक्ष की सूची

जिला : प्रखंड :
 कुल मतदाताओं
 की संख्या : मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या :
 समिति का नाम : निर्वाचन की तिथि : DD/ MM/ YYYY

पद	नाम	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति
मंत्री/ कोषाध्यक्ष				

* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/सामान्य

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

 अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 702-571+50-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>